

MAEC-107**International Economics**

(अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र)

M. A. Economics (MAEC-12/16)

Second Year, Examination, 2017

Time : 3 Hours**Max. Marks : 80**

Note : This paper is of **eighty (80)** marks containing **three (03)** Sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क**(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)**

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of nineteen (19) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Explain the opportunity cost theory of International Trade.

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

2. Explain the case of Free Trade. Under what conditions do you justify protection ?

मुक्त व्यापार पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत कीजिये। आप किन परिस्थितियों में संरक्षण को न्यायोचित मानते हैं ?

3. Explain the International Liquidity and Special Drawing Rights.

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता तथा विशेष आहरण अधिकार की व्याख्या कीजिए।

4. Discuss the role of Foreign Trade in economic development of an underdeveloped country.

किसी अल्पविकसित देश के विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका का वर्णन कीजिए।

Section-B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Explain Dumping and Anti-dumping measures.
राशिपातन तथा राशिपातन विरोधी उपायों को समझाइये।
2. Explain Customs Union.
सीमा संघ को समझाइये।
3. Explain the comparative cost theory of Trade.
व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को समझाइये।
4. Explain Foreign Trade Multiplier.
विदेशी व्यापार गुणक को समझाइये।
5. Explain the purchasing power parity theory of Foreign Exchange Rate.
विदेशी विनिमय दर के क्रय शक्ति समता सिद्धान्त को समझाइये।
6. Explain the current account and capital account of balance of payments.
भुगतान-सन्तुलन के चालू खाते तथा पूँजीगत खाते को समझाइये।
7. Explain Foreign Exchange Control.
विदेशी विनिमय नियन्त्रण को समझाइये।
8. Discuss the role of W. T. O.
विश्व व्यापार संगठन (W. T. O.) की भूमिका की समीक्षा कीजिए।

Section-C / खण्ड-ग**(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)**

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this Section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Choose the correct answer :

सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. Under which type of costs differences international trade will not take place ?
 - (a) Absolute difference in cost
 - (b) Comparative difference in cost
 - (c) Equal difference in cost
 - (d) None of the above

कौन सी लागत अन्तरों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है ?

 - (अ) लागतों में निरपेक्ष अन्तर
 - (ब) लागतों में तुलनात्मक अन्तर
 - (स) लागतों में समान अन्तर
 - (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
2. Which of the following methods is used in import restriction ?
 - (a) Income Tax
 - (b) Corporate Tax
 - (c) Quota System
 - (d) None of the above

निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग आयात नियन्त्रण के लिए किया जाता है ?

- (अ) आयकर
- (ब) निगम कर
- (स) कोटा प्रणाली
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. The meaning of devaluation is :

- (a) Reduction in internal value of money
- (b) Reduction in external value of money
- (c) Increase in prices
- (d) Decrease in prices

अवमूल्यन का अर्थ है :

- (अ) मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में कमी
- (ब) मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी
- (स) कीमतों में वृद्धि
- (द) कीमतों में कमी

4. Who propounded the theory of comparative costs ?

- (a) Ricardo
- (b) Adam Smith
- (c) Haberler
- (d) Mill

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का प्रतिपादन किसने किया ?

- (अ) रिकार्डो
- (ब) एडम स्मिथ
- (स) हैबरलर
- (द) मिल

5. Which of the following Acts has been replaced by the enactment of FEMA ?

- (a) FERA
- (b) TRIPS
- (c) Patent Act
- (d) None of the above

निम्नलिखित में से किस एक्ट को फेमा ने बदला ?

- (अ) फेरा
- (ब) ट्रिप्स
- (स) पेटेण्ट एक्ट
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

6. OPEC is an example of the types of producer's organisation known as a :

- (a) Trust
- (b) Cartel
- (c) Marketing Board
- (d) All of the above

ओपेक उत्पादन संघ के प्रकार का एक उदाहरण है जिसे जाना जाता है :

- (अ) ट्रस्ट के रूप में
- (ब) कार्टेल के रूप में
- (स) मार्केटिंग बोर्ड के रूप में
- (द) उपर्युक्त सभी

7. “Edgeworth Box Diagram” was used for the purpose of :

- (a) Terms of trade determination
- (b) Distribution of income
- (c) Exchange rate determination
- (d) All of the above

“एजवर्थ बॉक्स चित्र” का उपयोग निम्न उद्देश्य से किया गया था :

- (अ) व्यापार की शर्त निर्धारण हेतु
- (ब) आय के वितरण हेतु
- (स) विनिमय दर निर्धारण हेतु
- (द) उपर्युक्त सभी

8. Which of the following is correct ?

(a) $K = \frac{1}{MPS}$

(b) $MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$

(c) $K = \frac{1}{1 - MPC}$

(d) All of the above

निम्नलिखित में से कौन सही है ?

(अ) $K = \frac{1}{MPS}$

(ब) $MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$

(स) $K = \frac{1}{1 - MPC}$

(द) उपर्युक्त सभी

9. Purchasing power parity theory of exchange rate determination was propounded by :

- (a) G. Cassel
- (b) Samuelson
- (c) Keynes
- (d) Haberler

विनिमय दर निर्धारण के क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था :

- (अ) जी. कैसल ने
- (ब) सैम्युल्सन ने
- (स) कीन्स ने
- (द) हैबरलर ने

10. In which of the following year India's Balance of Trade was in surplus ?

- (a) 1971-72
- (b) 1976-77
- (c) 1991-92
- (d) 1996-97

निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का विदेशी व्यापार आधिक्य में था ?

- (अ) 1971-72
- (ब) 1976-77
- (स) 1991-92
- (द) 1996-97